

अन्तर्जनपदीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड, 08 चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध असलहा सहित 03 अन्तर्जनपदीय शातिर वाहन चोर गिरफ्तार ।

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व वाहने चोरी करके कारोबार करने वाले क्रियाशील व चिन्हित किये गये अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री संजीव कुमार बाजपेयी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण में एवं श्री अरविन्द कुमार, क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के निर्देशन में थाना अल्हागंज पुलिस को को बड़ी सफलता प्राप्त हुई ।

दिनांक 06.10.2021 की रात्रि समय करीब 02.10 बजे श्री प्रदीप सहरावत, थानाध्यक्ष थाना अल्हागंज के नेतृत्व में थाना अल्हागंज पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर **धर्मपुर पिडरिया मोड के पास से अभियुक्तगण 1.रंजीत 2.हरमोद शुक्ला 3.शहजाद** को 08 अदद चोरी की मोटरसाइकिल जिनके रजि0 सं0 , चैसिस सं0 , इंजन सं0 को कूट रचित किया हुआ व 01 अदद तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस व 01 नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना अल्हागंज पर मु0अ0सं0 367/2021 धारा 411/413/414/420/467/468/471 IPC व मु0अ0सं0 368/2021 धारा 3/25 आर्मस एक्ट व मु0अ0सं0 369/2021 धारा 4/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

कार्यक्षेत्र -

अभियुक्त शहजाद उपरोक्त नोएडा में मोटर साइकिल रिपेयरिंग की दुकान करता है तथा वहां आस पास से मोटर साइकिल चोरी कर उनके फर्जी कागजात तैयार कराकर तथा उनके रजिस्ट्रेशन , इंजन , चैसिस नम्बर आदि बदलकर रंजीत S/O राजकुमार व हरमोद शुक्ला S/O राजेश्वर शुक्ला उपरोक्त दोनो लोगो को देकर जनपद शाहजहाँपुर , फर्रुखाबाद , हरदोई तथा आस पास के ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाकर बेचने के लिये दे देता है क्योंकि ये मोटर साइकिल नोएडा में नहीं बिक पाती हैं इसलिए ये इन्हें लाकर यहां आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बेच देते हैं । जहां आसानी से इन्हें खरीददार मिल जाते हैं । तथा जो भी पैसा आता है उसे अभियुक्तगण आपस में बांट लेते हैं तथा जीवन यापन करते हैं ।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तो के नाम -

1. रंजीत S/O राजकुमार नि0 ग्राम रुलिया मोउद्दीनपुर थाना आसीमन जिला उन्नाव ।
2. हरमोद शुक्ला S/O राजेश्वर शुक्ला नि0 मो0 दीनदयाल बाग अमेठी कोना थाना कोतवाली जिला फर्रुखाबाद ।
3. शहजाद S/O मौमीन नि0 ग्राम अठसैनी थाना गढमुक्तेश्वर जिला हापुड ।

बरामदगी -

क्रं0सं0	वाहन रजिस्ट्रेशन नम्बर	चैसिस नं0	इंजन नं0	कम्पनी विवरण	अन्य विवरण
1.	UP 14 BE 8786	MBLHA10BJEHH74442	-	पैशन प्रो	काला रंग
2.	UP 76 M 3890	MBLHA10EZAHK20719	-	पैशन प्रो	रंग काला
3.	-	MBLHA10CGH4A14715	-	स्पलैण्डर प्लस	रंग काला
4.	UP 76 R 2681	MD634KE46E2A61921	-	TVS APACHE RTR 160	रंग सफेद
5.	-	MDLJA05EKDML01059	-	सुपर स्पलैण्डर	रंग काला
6.	-	ME4JC623G08028089	-	होडा ड्रीम न्यू 110	रंग काला
7.	DL 7 BD 955	MBLHA10ER9GH3748	-	पैशन प्रो	-
8.	-	-	-	पल्सर	रंग काला

पंजीकृत किये गये अभियोग –

1. मु0अ0सं0 367/2021 धारा 411/413/414/420/467/468/471 IPC थाना अल्हागंज जिला शाहजहांपुर
2. मु0अ0सं0 368/2021 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना अल्हागंज जिला शाहजहांपुर
3. मु0अ0सं0 369/2021 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना अल्हागंज जिला शाहजहांपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. SO श्री प्रदीप सिंह सहरावत थाना अल्हागंज जिला शाहजहांपुर
2. उ0नि0 श्री शिवमोहन थाना अल्हागंज जनपद शाहजहांपुर
3. उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना अल्हागंज जिला शाहजहांपुर
4. हे0का0 13 संजीव सिंह थाना अल्हागंज जिला शाहजहांपुर
5. रि0का0 भीम सिंह थाना अल्हागंज जनपद शाहजहांपुर
6. रि0का0 सेवेन्द्र सिंह थाना अल्हागंज जिला शाहजहांपुर
7. चालक का0 राजेश कुमार थाना अल्हागंज जिला शाहजहांपुर